



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1979/आश्विन 6, 1901

No. 307]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1979/ASVINA 6, 1901

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(प्राथमिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1979

सां० का० नि० 554 (अ):—केन्द्रीय सरकार, डाक घर ध्वजक बैंक नियम, 1965 के नियम 9 के अनुसरण में, यह अधिसूचित करती है कि 1 अक्टूबर, 1979 से आगे आदेश जारी होने तक नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट खाते में अधिलेख पर व्याज, उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर अनुज्ञात किया जाएगा :—

सारणी

खाता	प्रतिवर्ष व्याज की दर
1	2
1. एकल खाता	5.5 प्रतिशत
2. पेंशन खाता	5.5 प्रतिशत
3. संयुक्त खाता	5.5 प्रतिशत
4. संवायक खाता	5.5 प्रतिशत

672 GI/79

1	2
5. भविष्य निधि, अधिवाधिता निधि या उप-दान निधि खाता	5.5 प्रतिशत
6. मार्जिनल खाता	5 प्रतिशत
7. प्रतिभूति निक्षेप खाता	3 प्रतिशत
8. अन्य खाते	3 प्रतिशत

[का० 2/18/79-एम एस (4)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th September 1979

G.S.R. 554/(E).—In pursuance of rule 9 of the Post Office Savings Bank Rules, 1965, the Central Government hereby notifies that, with effect from the 1st October, 1979 and until further orders, interest on the balance at credit of an account specified in column (1) of the Table below, shall be allowed at the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :—

TABLE

Account	Rate of interest per annum
1	2
1. Single account	5.5 per cent
2. Pension account	5.5 per cent

(1199)

1	2
3. Joint account	5.5 per cent
4. Sanchayika account	5.5 per cent
5. Provident Fund, Superannuation Fund or Gratuity Fund Account	5.5 per cent
6. Public account	5 per cent
7. Security Deposit account	3 per cent
8. Other accounts	3 per cent

[F. 2/18/79-NS. (iv)]

सा० का० नि० 535 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत पत्र नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1979 को प्रयुक्त होंगे।

2. डाकघर बचत पत्र नियम, 1960 के नियम 31 के उपनियम (2) में,—

(1) खण्ड (ग) और उसके अधीन सारणी के शीर्षक में, “23 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात्” शब्दों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“23 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्टूबर 1979 के पूर्व”

(2) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) 1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जारी किए गए विभिन्न अंकित मूल्यों के 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (द्वितीय निर्गमन) की परिपक्वता पर उनके भुनाए जाने पर संदेय रकम (जिसके अन्तर्गत व्याज भी है) निम्नलिखित सारणी के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

सारणी

1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जारी किए गए 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (द्वितीय निर्गमन) का परिपक्वता मूल्य

अंकित मूल्य	परिपक्वता पर संदेय रकम
र०	र०
10	15.55
50	77.75
100	155.50
500	777.50
1000	1555.00
5000	7775.00

[फा० सं० 2/18/79—एन० एस० (5)]

G.S.R. 555(E). In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1979.

2. In sub-rule (2) of rule 31 of the Post Office Savings Certificates Rules, 1960—

(i) in clause (c) and in the heading to Table thereunder, for the words, figures and letters “on or after the 23rd July, 1974”, the following shall be substituted, namely :—

“on or after the 23rd July 1974, but before the 1st October, 1979”.

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

“(d) The amounts (including interest) payable on encashment on maturity of 7-Year National Savings Certificates (II Issue) of different denominations issued on or after the 1st October, 1979 shall be as in the following Table, namely :—

TABLE

Maturity values of 7-Year National Savings Certificates (II Issue) issued on or after the 1st October, 1979

Face value	Amount payable on maturity
Rs.	Rs.
10	15.55
50	77.75
100	155.50
500	777.50
1000	1555.00
5000	7775.00

[F. 2/18/79-NS (v)]

सा० का० नि० 556 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (पाँचवाँ निर्गमन) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (पाँचवाँ निर्गमन) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1979 से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (पाँचवाँ निर्गमन) नियम, 1973 के नियम 26 के उपनियम (1) में,—(1) पैरा के प्रारंभ में, “सारणी क, ख, ग और घ” शब्दों और शब्दों के स्थान पर, “सारणी क, ख, ग, घ और इ” शब्द और शब्द रखे जाएँगे,

(2) सारणी क में, "1 अक्टूबर, 1976 को या उसके पश्चात् जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्रों (पांचवां निर्गमन) का अभ्यर्पण मूल्य" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1 अक्टूबर, 1976 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्टूबर, 1979 के पूर्व जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्रों (पांचवां निर्गमन) का अभ्यर्पण मूल्य।"

(3) सारणी घ के पश्चात् निम्नलिखित सारणी छ अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी छ

1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्रों (पांचवां निर्गमन) का परिपक्वता मूल्य

अंकित मूल्य	परिपक्वता पर संदेय रकम
₹०	₹०
10	20.45
50	102.25
100	204.50
500	1022.50
1000	2045.00"

[फा० सं० 2/18/79-एनएम (6)]

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, namely :—

1. (4) These rules may be called the National Savings Certificates (V Issue) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1979.

2. In sub-rule (1) of rule 26 of the National Savings Certificate (V Issue) Rules, 1973,—

(i) in the opening paragraph, for the words and letters "in Tables A, B, C and D", the words and letters "in Tables A, B, C, D and E" shall be substituted;

(ii) in Table A, for the heading "Surrender values of National Savings Certificates (V Issue) issued on or after 1st October, 1976," the following heading shall be substituted, namely :—

"Surrender values of National Savings Certificates (V Issue) issued on or after 1st October, 1976, but before 1st October, 1979".

(iii) after Table D, the following Table shall be inserted, namely :—

"TABLE E

Maturity values of National Savings Certificates (V Issue) issued on or after 1st October, 1979.

Face Value	Amount payable on maturity
Rs.	Rs.
10	20.45
50	102.25
100	204.50
500	1022.50
1000	2045.00"

[F. No. 2/18/79-NS(vi)]

अधिसूचना

सा० का० नि० 557 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) को धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी बचत पत्र नियम, 1965 में धीरे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सरकारी बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1979 को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी बचत पत्र नियम, 1965 के नियम 26 के उपनियम (2) में,—

(1) खण्ड (क) में, "23 जुलाई 1974 को या उसके पश्चात्" शब्दों धीरे अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"23 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अक्टूबर, 1979 के पूर्व"

(2) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) 1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जारी किए गए विभिन्न अंकित मूल्यों के 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (द्वितीय निर्गमन),—बैंक श्रृंखला की परिपक्वता पर उनके भूनाग जाने पर संदेश रकम (जिसके अन्तर्गत ब्याज भी है) निम्नलिखित सारणी के अनुरूप होंगी," अर्थात् :—

सारणी

1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जारी किए गए 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (द्वितीय निर्गमन)—बैंक श्रृंखला का परिपक्वता मूल्य।

अंकित मूल्य	परिपक्वता पर संदेय रकम
1	2
₹०	₹०
10	15.55
50	77.75

1	2
100	155.50
500	777.50
1000	1555.00
5000	7775.00

[फा० सं० 2/18/79-एनएस (7)]

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Government Savings Certificates Rules 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Savings Certificates (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1979.

2. In sub-rule (2) of Rule 26 of the Government Savings Certificates Rules, 1965,

(i) in clause (a), for the words, figures and letters "on or after the 23rd July, 1974", the following shall be substituted namely :—

"On or after the 23rd July 1974, but before the 1st October, 1979";

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) The amounts (including interest) payable on encashment on maturity of 7 Year National Saving Certificates (II Issue)—Bank Series of different denominations issued on or after the 1st October 1979 shall be as in the following table", namely :—

TABLE

Maturity values of 7-Year National Savings Certificate (II Issue)—Bank Series issued on or after the 1st October, 1979.

Face Value	Amount payable on maturity
Rs.	Rs.
50	15.55
100	77.75
500	155.50
1000	777.50
5000	1555.00
	7775.00

[F. No. 2/18/79-NS(vii)]

सं० का० नि० 558(प्र) :—केन्द्रीय सरकार, सरकार, वचन पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करने हुए राष्ट्रीय विकास बन्धपत्र नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय विकास बन्धपत्र (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1979 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय विकास बन्धपत्र नियम, 1977 के नियम 7 में—

(1) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) 1 अक्टूबर, 1979 के पूर्व जारी किए गए 10 रु०, 100 रु० और 500 रु० अंकित मूल्यों के बन्धपत्रों पर संदेय रकमों, जिनके अन्तर्गत ब्याज भी है, उपनियम (1) के अधीन भुनाए जाने पर क्रमशः 16.50 रु०, 165 रु० और 825 रु० होंगी।"

(2) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) 1 अक्टूबर, 1979 को या उसके पश्चात् जारी किए गए 10 रु०, 100 रु० और 500 रु० अंकित मूल्यों के बन्धपत्रों पर संदेय रकमों, जिनके अन्तर्गत ब्याज भी है, उपनियम (1) के अधीन भुनाए जाने पर, क्रमशः 16.70 रु०, 167 रु० और 835 रु० होंगी।"

[फा० सं० 2/18/79-एनएस (8)]

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Development Bonds Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Development Bond (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1979

2. In the National Development Bonds Rules, 1977, in rule 7—

(i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :

"(4) The amounts, including interest, payable on Bonds of denominations of Rs. 10, Rs. 100 and Rs. 500 issued before 1st October 1979, shall, on encashment under sub-rule (1), be Rs. 16.50, Rs. 165, and Rs. 825, respectively."

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) The amounts, including interest, payable on Bonds of denominations of Rs. 10, Rs. 100 and Rs. 500, issued on or after 1st October, 1979, shall, on encashment under sub-rule (1), be Rs. 16.70, Rs. 167, Rs. 835, respectively".

[F. No. 2/18/79-NS(viii)]

